

## ब्रेन इंटरनेशनल स्कूल

विषय –हिंदी

कक्षा –दसवीं

Assignment अप्रैल – मई 2018- 19

**प्रश्न 1 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।**

छात्र राष्ट्र की सम्पत्ति हैं । देश की उन्नति उन्हीं पर निर्भर है इसलिए उन्हें देश का कर्णधार कहा गया है । छात्र जीवन में कुछ कर डालने की जो बलवती इच्छा होती है, वही उनमें जोश भरती रहती है । देश में जितने भी महान नेता अथवा धार्मिक पुरुष हैं , वे सब अपनी छात्र अवस्था में बन गए थे । छात्रों में सामर्थ्य होता है । यदि उनका उचित मार्ग दर्शन कर दिया जाए तो ,वे अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं । माता जीजाबाई के उपदेशों का ही फल था कि साधनहीन शिवाजी ने देखते ही देखते एक साम्राज्य का निर्माण कर डाला । महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया । गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव डाली । महात्मा गाँधी और जवाहरलाल नेहरू भी इसी अवस्था में देश सेवा में जुट गए थे । इतिहास इस बात का गवाह है कि छात्रों की शक्ति अनंत होती है और वे असंभव को संभव कर डालते हैं । आज बर्मा में छात्र ही तो वे आन्दोलन चला रहे हैं , जिनके कारण अभी तक तीन राष्ट्राध्यक्ष बदल चुके हैं । सैनिक शासकों के विरुद्ध उन लोगों ने गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया है । उनके कार्यों से सरकारी दावे झूठे पड़ते जा रहे हैं ।

क) देश का कर्णधार किन्हें कहा गया है और क्यों ?

ख) छात्रों में छात्र जीवन में कुछ कर डालने का जोश कौन भरता है ?

ग) उचित मार्ग दर्शन छात्रों के जीवन को कैसे बदल देता है ? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए ।

घ) छात्र अवस्था सबसे महत्त्वपूर्ण अवस्था क्यों है ?

**प्रश्न 2 शब्द एवं पद में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए ।**

**प्रश्न 3 निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए ।**

क) पाँच रेल के कर्मचारी पकड़े गए ।

ख) सरकारी मिट्टी के तेल की दुकान बंद है ।

ग) मात्र केवल महिलाओं के लिए आरक्षित ।

घ) उस कलाकार ने तरह – तरह का रूप धारण किया ।

**प्रश्न 4 निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए ।**

क) परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। (मिश्र वाक्य )

ख) तुम बाहर गए और वह सो गया । (सरल वाक्य )

ग) नीरजा ने कहानी सुनाई और नमिता रो पड़ी । (मिश्र वाक्य )

घ) आप इसलिए उत्तीर्ण हो गए क्योंकि आपने कठिन परिश्रम किया । (संयुक्त वाक्य )

**प्रश्न 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।**

क) 'हरिहर काका' कहानी जीवन के किस यथार्थ को उजागर करती है ?

ख) परिवार व धर्मस्थल मनुष्य के जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं ?

ग) 'बड़े भाईसाहब' कहानी पारिवारिक संबंधों का आदर्श प्रस्तुत करती है । इस कथन की पुष्टि कीजिए ।

घ) 'डायरी का एक पन्ना' पाठ के आधार पर बताइए कि कलकत्ता का नाम क्यों कलंकित था और वह कलंक कैसे धुला ?

ड)निकोबार द्वीपसमूह दो टुकड़ों में विभक्त होकर भी जुड़ गया | सिद्ध कीजिए|

च)लोग तताँरा का विरोध क्यों करने लगे ?

छ)‘पर्वत प्रदेश में पावस’ कविता के आधार पर पर्वत प्रदेश के मनोरम सौन्दर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए|

ज) किसी भी व्यक्ति के जीवन में निंदक की भूमिका क्यों महत्त्वपूर्ण होती है ?

झ) कबीर जी के दुःख का क्या कारण है ?

ञ) मीराबाई कृष्ण से क्या विनती कर रही हैं ?

प्रश्न 6 पेयजल की समस्या के समाधान के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए |

प्रश्न 7 ‘संघर्ष ही जीवन है’ विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए |